



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]
No. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 2003/ज्येष्ठ 24, 1925
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 14, 2003/JYAISTHA 24, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मई, 2003

का.नि.आ. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह (ग) पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1989 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह "ग" पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर (भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी समूह (ग) पर्यवेक्षीय और अराजपत्रित काडर (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 1989 की अनुसूची में,—

(i) स्तम्भ 8 के अधीन चार्जमैन श्रेणी-II (तकनीकी) के पद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"विभिन्न व्यवसायों/विधाओं में सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं होंगी :

(क) यांत्रिक—ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ख) विद्युत (जिसमें इलैक्ट्रॉनिक भी है)—ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) सिविल और स्थापत्यकला—ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(घ) धातुकर्म—एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।

या

ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा।

(ड) रसायन—एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।

या

ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा।

(च) चरमा—एक मुख्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और गणित के साथ बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।

(छ) कपड़ा—एक मुख्य विषय के रूप में सामान्य रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।

या

ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा।

(ज) चमड़ा—एक मुख्य विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी.एस.सी. डिग्री होनी चाहिए।

या

ए आई सी टी ई द्वारा सम्यक् रूप से सहबद्ध संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य परीक्षा।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)—भारत सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त कम्प्यूटर विज्ञान में "क" स्तर की क्षमता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या समतुल्य अर्हता होनी चाहिए।

(ii) स्तम्भ 8 के अधीन चार्जमैन श्रेणी-II (गैर तकनीकी और भंडारण) के पद के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी, तकनीकी, मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि में स्नातक डिग्री"।

[फा. सं. 41(1)/03/III/डी(एफ.वाई-II)]

सुरेश शर्मा, डैस्क अधिकारी

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र (असाधारण) का० नि० आ० सं० 13 असा० तारीख 4-5-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और उनका पश्चात्तर्ती संशोधन का० नि० आ० सं० 191(अ) तारीख 28 नवम्बर, 1994 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th May, 2003

S.R.O. 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Ordnance Factories Group 'C', Supervisory and Non-Gazetted Cadre (Recruitment and conditions of service) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Ordnance Factories Group 'C', Supervisory and Non-Gazetted Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Ordnance Factories Group 'C', Supervisory and Non-Gazetted Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1989, in the schedule,—

(i) Against the post of Chargeman Grade-II (Technical) under column 8, for the existing entry, the following shall be substituted namely :—

"The following will be the Educational Qualification for Direct Recruitment in different trades/disciplines :

- (a) Mechanical.—Must possess three years diploma or equivalent qualification certificate in the respective field duly affiliated by AICTE.
- (b) Electrical (including Electronics) Must possess three years diploma or equivalent qualification certificate in the respective field duly affiliated by AICTE.
- (c) Civil and Architecture—Must possess three years diploma or equivalent qualification certificate in the respective field duly affiliated by AICTE.
- (d) Metallurgical—B.Sc. Degree with General Chemistry as one of the major subject.

OR

Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE.

- (e) Chemical—B.Sc. Degree with General Chemistry as one of the major subject.

OR

Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE.

- (f) Optical—B.Sc. Degree with Physics and Mathematics as major subject.
 (g) Clothing—B.Sc. Degree with General Chemistry as one of the major subject.

OR

Three years Diploma or equivalent exams. in respective field or equivalent qualification duly affiliated by AICTE.

- (h) Leather—B.Sc. Degree with Chemistry as one of the major subject.

OR

Three years Diploma or equivalent exams. in respective field duly affiliated by AICTE.

- (i) Information Technology (IT)—Must pass “A” Level competency certificate course or equivalent qualification in Computer Science duly recognised by Govt. of India.”
 (ii) Against the post of Chageman Grade-II (Non-Technical and Stores) under Column 8, for the existing entry the following shall be substituted namely :—
 “A graduate Degree in Engineering, Technical, Humanities, Science, Commerce, Law etc. from a recognised University.”

[F. No. 41(1)/03/III/D(FY-II)]

SURESH SHARMA, Desk Officer

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India (Extra ordinary) by number SRO 13-Extra dt. 4-5-1989 and subsequently amended vide SRO 191(E) dated the 28th Nov., 1994.

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.नि.आ. 67.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के सा.नि.आ. 76(ड) दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रम सं. 8 और 12 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए 'धारा 12 की उप धारा (1) के खंड (ज) के तहत' शीर्षक के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

- | | | | |
|------|---|---|-------|
| (8) | लेफ्टिनेंट कर्नल नीला के. पंडित (सेवानिवृत्त) | — | सदस्य |
| (12) | डॉ. जॉर्ज मैथ्यू | — | सदस्य |

[फाइल सं. 10(19)/89/रक्षा(जी एस-VI)]

आर. एल. कपूर, अवर सचिव

बाद टिप्पणी : यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1983 के सा.नि.आ. सं. 76(ड) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा बाद में उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. 18-8-1986 का सा.नि.आ. सं. 290
2. 06-4-1987 का सा.नि.आ. सं. 154
3. 25-9-1987 का सा.नि.आ. सं. 298
4. 28-5-1990 का सा.नि.आ. सं. 110
5. 28-6-1990 का सा.नि.आ. सं. 140
6. 30-9-1991 का सा.नि.आ. सं. 224
7. 30-9-1999 का सा.नि.आ. सं. 225
8. 22-6-1992 का सा.नि.आ. सं. 183
9. 20-5-1993 का सा.नि.आ. सं. 184
10. 21-8-1995 का सा.नि.आ. सं. 188
11. 16-5-1996 का सा.नि.आ. सं. 94

12. 11-12-1998 का सा.नि.आ. सं. 172
13. 24-2-1999 का सा.नि.आ. सं. 37
14. 16-8-2000 का सा.नि.आ. सं. 183
15. 18-2-2003 का सा.नि.आ. सं. 44

New Delhi, the 30th May, 2003

S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby appoints the following persons as non-official member of the Central Advisory Committee with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Defence, SRO 76(E), dated the 10th October, 1983, namely :—

In the said Notification, under the heading “under clause (h) Sub-section (1) of section 12”, for serial number 8 and 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

- | | | |
|------|----------------------------------|---------|
| (8) | Lt. Col. Neela K. Pandit (Retd.) | —Member |
| (12) | Dr. George Mathew | —Member |

[F. No. 10(19)/89/D(GS-VI)]

R. L. KAPOOR, Under Secy.

Foot Note : The Notification was published vide SRO No. 76(E), dated the 10th October, 1983 and subsequently amended vide :

1. S.R.O. No. 290 dt. 18-8-1986
2. S.R.O. No. 154 dt. 6-4-1987
3. S.R.O. No. 298 dt. 25-9-1987
4. S.R.O. No. 110 dt. 28-5-1990
5. S.R.O. No. 140 dt. 28-6-1990
6. S.R.O. No. 224 dt. 30-9-1991
7. S.R.O. No. 225 dt. 30-9-1991
8. S.R.O. No. 183 dt. 22-6-1992
9. S.R.O. No. 184 dt. 20-5-1993
10. S.R.O. No. 188 dt. 21-8-1995
11. S.R.O. No. 94 dt. 16-5-1996
12. S.R.O. No. 172 dt. 11-12-1998
13. S.R.O. No. 37 dt. 24-2-1999
14. S.R.O. No. 183 dt. 16-8-2000
15. S.R.O. No. 44 dt. 18-2-2003

नई दिल्ली, 28 मई, 2003

का.नि.आ. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर (मुख्य नक्शानवीस) भर्ती नियम, 1972 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर में मुख्य नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर कोर मुख्य नक्शानवीस (समूह “ख” राजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अहर्ताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता.**— वह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए औ कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

- | | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | : मुख्य नवशानवीस |
| 2. पदों की संख्या | : 11* |
| | (2002) |
| | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। |
| 3. वर्गीकरण | : साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय |
| 4. वेतनमान | : 6500-200-10500 रु. |
| 5. चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर | : चयन |
| अथवा चयन पद | |
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | : लागू नहीं होता |
| 7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | : लागू नहीं होता |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | : लागू नहीं होता |
| 9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | : नहीं |
| 10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | : लागू नहीं होता |
| 11. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | : प्रोन्नति |

12. प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा : 5500-9000 रु. के वेतनमान में ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-I जिसने इस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है।
जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—
(i) अपर महानिदेशक/इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर (कार्मिक और प्रशासन), इलैक्ट्रॉनिकी यांत्रिकी इंजीनियर महानिदेशालय, सेना मुख्यालय—अध्यक्ष
(ii) निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर (कार्मिक), इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर महानिदेशालय, सेना मुख्यालय—सदस्य
(iii) संयुक्त निदेशक, इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी इंजीनियर (सिविलियन), इलैक्ट्रॉनिकी और यांत्रिकी महानिदेशालय, सेना मुख्यालय—सदस्य
14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 81251/49/आर.आर./सीडीएम/ईएमई सिव-1/269/रक्षा (नि.)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 2003

S.R.O. 68.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the rules of Electronics and Mechanical Engineers (Chief Draughtsmen) Recruitment Rules, 1972, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Draughtsman in the Corps of Electronics and Mechanical Engineers under Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers Chief Draughtsman (Group 'B' Gazetted) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, and scale of pay.—The number of the said post, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limits, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person—

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

- | | |
|---|--|
| 1. Name of post | : Chief Draughtsman |
| 2. Number of post | : II*
(2002)
*Subject to variation dependent on workload |
| 3. Classification | : General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial |
| 4. Scale of pay | : Rs. 6500-200-10500/- |
| 5. Whether Selection or Non-selection Post | : Selection |
| 6. Age-limit for direct recruits | : Not applicable |
| 7. Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972 | : Not applicable |
| 8. Educational and other qualifications required for direct recruits. | : Not applicable |
| 9. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | : No |
| 10. Period of probation, if any | : Not applicable |
| 11. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | : Promotion |
| 12. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made | : Draughtsman
Grade I in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the Grade.
Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. |
| 13. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition | : Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:—

(a) Additional Director General Electronics and Mechanical Engineers (Personnel and Administration), Directorate General of Electronics Mechanical Engineers Army Headquarters—Chairman
(b) Director Electronics and Mechanical Engineers (Personnel), Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers, Army Headquarters—Member
(c) Joint Director Electronics and Mechanical Engineers (Civilian), Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers, Army Headquarters—Member |
| 14. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment | : Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. 81251/49/PR/CDM/EME CIV-I/269/D(Apptts.)]

V. A. CHAYDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जून, 2003

का.नि.आ. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रक्षा संपदा (समूह 'क') (संशोधन) नियम, 1985 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रक्षा संपदा (समूह 'क') (संशोधन) नियम, 2003 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों की अनुसूची IV में :—

(क) क्रम संख्या 4 और 6 के सामने, उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	पद का नाम	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के विचार के लिए)	
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (चयन श्रेणी)	(1) महानिदेशक, रक्षा संपदा (2) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (3) अपर महानिदेशक (प्रशा.) रक्षा संपदा	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
6.	ज्येष्ठ काल वेतनमान	(1) महानिदेशक, रक्षा संपदा (2) संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय (3) अपर महानिदेशक (प्रशा.) रक्षा संपदा	अध्यक्ष सदस्य सदस्य

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में का. नि. आ. सं. 17 ई तारीख 22-11-85 के द्वारा और पश्चात्पूर्वी संशोधन का. नि. आ. सं. 339 तारीख 30-11-88 तथा का. नि. आ. सं. 27 तारीख 31-01-2000 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 103/69/ए.डी.एम./डीई/92/168/आर आर/रक्षा (नि.)]

वी. ए. चावड़ा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd June, 2003

S.R.O. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso in Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Defence Estates Service (Group 'A') Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Defence Estates Service (Group 'A') (Amendment) Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule IV to the said rules—
(a) against serial number 4 and 6, for the entries thereto, the following entries shall be substituted respectively namely :—

Sl. No.	Name of the post	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)	
4.	Junior Administrative Grade (Selection Grade)	(i) Director General, Defence Estates (ii) Jt. Secy. Ministry of Defence (iii) Addl. Director General (Admin), Defence Estates	—Chairman —Member —Member
6.	Senior Time Scale	(i) Director General, Defence Estates (ii) Jt. Secy. Ministry of Defence (iii) Addl. Director General (Admin), Defence Estates	—Chairman —Member —Member”;

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide SRO No. 17E dated 22-11-85 and subsequently amended vide SRO No. 339 of 30-11-88 and SRO No. 27 dated 31-01-2000.

[F. No. 103/69/ADM/DE/92/168/RR/D(Apptts)]

V. A. CHAVDA, Under Secy.